

उत्तराखण्ड शासन
राज्य सम्पत्ति अनुभाग-2
सं०- /xxxii(2)/2016-01(17)/2016
देहरादून : दिनांक 14 मार्च, 2016

कार्यालय-आदेश

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रात्रणाधीन एम्बेसेडर वाहनों में मै० हिन्दुस्तान मोटर्स लि० की देहरादून स्थित मान्यता प्राप्त अधिकृत डीलर/फर्म मै०डी०डी० मोटर्स प्रा० लि०, आबेराय मोटर्स बिल्डिंग,माजरा देहरादून से माह माह जनवरी, 2016 (2.01.16 से 28.01.16 की अवधि) की विभिन्न तिथियों में करायी गयी सर्विसिंग/अनुरक्षण/रखरखाव/स्पेयर पार्ट्स बदले जाने के कार्यों के निमित्त कार्यदायी फर्म द्वारा उक्त कार्य से सम्बन्धित मुख्य व्यवस्थाधिकारी,राज्य सम्पत्ति विभाग के माध्यम से निम्नवत भुगतान हेतु उपलब्ध कराये गये संलग्न 45 बीजकों की कुल धनराशि ₹ 5,54,899.00 (₹ पाँच लाख चौवन हजार आठ सौ निच्यानवें मात्र) का भुगतान शासनादेश सं०-439/xxxii(1)/01(एक)-01/2015-2016, दि०-18.04.15 आवंटन पत्र सं० 439/xxxii(1)/01(एक)-01/2015-2016 अलोटमेंट आई डी-H1504070092 आवंटन दि०,10, अप्रैल, 2015 वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि की सुसंगत मद से आहरित कर सम्बन्धित फर्म को किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र.सं.	बिल संख्या	दिनांक	धनराशि (रु. में)
1.	4460	02.01.16	6,421.00
2.	4465	05.01.16	7,175.00
3.	4466	05.01.16	5,470.00
4.	4468	05.01.16	14,957.00
5.	4475	07.01.16	12,026.00
6.	4482	08.01.16	14,945.00
7.	4483	08.01.16	2,061.00
8.	4485	09.01.16	12,051.00
9.	4488	09.01.16	4,995.00
10.	4490	11.01.16	4,485.00
11.	4496	12.01.16	4,960.00
12.	4498	12.01.16	14,179.00
13.	4499	12.01.16	4,935.00
14.	4501	13.01.16	1,489.00
15.	4502	13.01.16	3,373.00
16.	4507	14.01.16	651.00
17.	4508	14.01.16	9,277.00
18.	4509	14.01.16	7,794.00
19.	4512	15.01.16	8,554.00
20.	4516	16.01.16	7,761.00
21.	4520	18.01.16	5,671.00
22.	4523	19.01.16	16,989.00
23.	4524	19.01.16	18,977.00
24.	4525	19.01.16	16,872.00
25.	4526	19.01.16	28,474.00
26.	4527	19.01.16	23,950.00
27.	4528	19.01.16	19,885.00
28.	4529	19.01.16	18,679.00
29.	4530	19.01.16	18,072.00
30.	4534	20.01.16	44,283.00
31.	4535	20.01.16	25,850.00
32.	4536	20.01.16	27,897.00
33.	4537	20.01.16	18,751.00
34.	4538	20.01.16	23,087.00

35.	4539	20.01.16	27,683.00
36.	4540	20.01.16	21,817.00
37.	4543	21.01.16	4,817.00
38.	4544	21.01.16	10,041.00
39.	4545	21.01.16	2,061.00
40.	4541	20.01.16	6,174.00
41.	4546	21.01.16	7,792.00
42.	4549	22.01.16	744.00
43.	4552	22.01.16	6,231.00
44.	4556	23.01.16	8,233.00
45.	4564	28.01.16	4,310.00
कुल धनराशि			₹ 5,54,899.00

2- वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि में नियमानुसार आयकर की कटौती करते हुए, निम्नवत् संबंधित फर्म को जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा :-

BANK NAME	BRANCH NAME	A/C No.	IFSC CODE	TIN NO.	PAN	Mobile No.
SBI	Rajpur road, Dehradun	31846419928	SBIN0004186	05001154616	AABCD5297Q	0135-2645039

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-07 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-00-आयोजनेत्तर-091-संलग्न कार्यालय-03-राज्य सम्पत्ति विभाग-15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद के नामे डाला जायेगा।

(धर्मेन्द्र सिंह)
अपर सचिव।

सं०-262/xxxii(2)/2016-01(17)/2016, तददिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून।
- 2- केन्द्रीयकृत भुगतान एव लेखा कार्यालय, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 3- वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- अनुसचिव, लेखा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।
- 5- मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग।
- 6- संबंधित फर्म इस आशय के साथ कि भुगतान प्राप्त होने के पश्चात इसकी सूचना मुख्य व्यवस्थाधिकारी को उनके अभिलेखों में प्रविष्टि हेतु उपलब्ध कराई जाएगी।
- 7- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन/ बजट सहायक/एन0आई0सी0, देहरादून/गार्ड फाइल

आज्ञा से

(एम0एम0सेमवाल)
संयुक्त सचिव।